

सत्र 2019–20
पाठ्यक्रम
(नियमित परीक्षार्थियों हेतु)
बी. ए. प्रथम वर्ष
प्रथम प्रश्न पत्र
संगीत का विज्ञान
(Science of Music)

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. तबला वाद्य की बनावट एवं अंगों का सचित्र वर्णन।
2. भारतीय वाद्य वर्गीकरण का सामान्य अध्ययन।

इकाई-2

1. तबला वाद्य के उद्भव एवं विकास के संबंध में प्रचलित मान्यताओं का परिचय।
2. तबले के घरानों का संक्षिप्त परिचय।

इकाई-3

1. तबले पर बजाये जाने वाले प्रारंभिक वर्णों के विकास का शास्त्रीय ज्ञान।
2. भातखण्डे ताललिपि पद्धति का सामान्य ज्ञान।

इकाई-4

1. सम, ताली, खाली, मात्रा, विभाग, लय, तिहाई, आवर्तन का पारिभाषिक ज्ञान।
2. तबला वाद्य पर बजाये जाने वाले प्रारंभिक तालों तीनताल, झपताल, कहरवा, दादरा, रूपक को ठाह एवं दुगुन लय में ताललिपि में लिखना।

इकाई-5

1. पखावज, तानपूरा, सारंगी, सितार एवं बांसुरी वाद्यों का सचित्र वर्णन।
2. नाद, स्वर, स्वरों के प्रकार (शुद्ध, विकृत), सप्तक, श्रुति, अलंकार, थाट, राग की परिभाषाएँ।



सत्र 2019–20
बी. ए. प्रथम वर्ष
द्वितीय प्रश्न पत्र
संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत
(Applied Principels of Music)

समय: 3 घण्टे

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. "तिट" एवं "तिरकिट" बोलों पर आधारित तीनताल के प्रारंभिक कायदों को पल्टे एवं तिहाई सहित ताललिपि में लिखना।
2. तीनताल, झपताल, कहरवा, दादरा, रूपक तालों को पहचानकर ताललिपि में लिखना।

इकाई-2

1. टुकड़ा, मुखड़ा, कायदा, पे"ाकार, परन, रेला का पारिभाषिक ज्ञान।
2. बड़ा खयाल, छोटा खयाल, मसीतखानी गत एवं रजाखानी गत का सामान्य परिचय।

इकाई-3

1. एकताल, तिलवाड़ा, झूमरा एवं दीपचन्दी तालों का सामान्य परिचय तथा ठाह एवं दुगुन लय में ताललिपि में लिखने का अभ्यास।
2. पखावज के तालों चौताल, सूलताल, तीव्रा एवं धमार का सामान्य परिचय ठाह एवं दुगुन लय में ताललिपि में लिखने का अभ्यास।

इकाई-4

1. पाठ्यक्रम के समान मात्रा वाले तालों का तुलनात्मक अध्ययन।
2. प्रारंभिक तालों (तीनताल, झपताल, कहरवा, रूपक एवं दादरा) को दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लय में लिखने का अभ्यास।

इकाई-5

1. खयाल, ध्रुपद, धमार, तुमरी, टप्पा एवं तराना गायन प्रकारों की परिभाषाएँ।
2. तीनताल में पॉचवी, सातवीं, नौवी एवं तेरहवीं मात्रा से प्रारम्भ तिहाईयों को ताललिपि में लिखना।



सत्र 2019–20
बी.ए. प्रथम वर्ष
प्रायोगिक
तबला वादन की तकनीक
(Technique of Tabla Playing)
प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration and Viva)

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

1. तबला वाद्य पर हाथ का रखाव एवं हस्त संचालन का अभ्यास।
2. तबले के प्रारंभिक वर्णों (संयुक्त एवं असंयुक्त) की जानकारी।
3. प्रारंभिक तालों तीनताल, झपताल, कहरवा, रूपक एवं दादरा तालों को हाथ से ताली देकर ठाह एवं दुगुन लय में पढना एवं तबले पर बजाना।
4. तीनताल के ठेके के चार प्रकारों को हाथ से ताली देकर पढना एवं तबले पर बजाना।
5. तीनताल में सामान्य तिहाईयों को तबले पर बजाना।
6. तबला के प्रारंभिक पारिभाषिक शब्दों की जानकारी।
7. तीनताल के "तिट" एवं "तिरकिट" बोलों पर आधारित प्रारंभिक कायदों को न्यूनतम चार पल्ले एवं तिहाई सहित बजाना।
8. "तिरकिट" बोल पर आधारित रेला बजाने का अभ्यास।

//संदर्भित पुस्तकें//

1. ताल प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
2. तबला कौमुदी भाग 1 एवं 2 : श्री रामशंकर पागलदास
3. तबला प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
4. ताल शास्त्र परिचय भाग-1 : डॉ. मनोहर भालचन्द्र मराठे
5. ताल परिचय भाग 1 एवं 2 : पं. गिरीष चन्द्र श्रीवास्तव



सत्र 2019–20
नियमित परीक्षार्थियों हेतु
बी. ए. द्वितीय वर्ष
तबला
प्रथम प्रश्न पत्र
संगीत का विज्ञान
(Science of Music)

समय : 3 घण्टे

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. तबला एवं पखावज के ऐतिहासिक विकासक्रम का विस्तृत अध्ययन।
2. वाद्य वर्गीकरण का विस्तृत अध्ययन। अवनद्ध वाद्यों के विकासक्रम का अध्ययन।

इकाई-2

1. तबले का दिल्ली एवं अजराडा घराना एवं उनकी वादन शैलियों का विस्तृत अध्ययन।
2. तबले का लखनऊ एवं फरूकखाबाद घराना एवं उनकी वादन शैलियों का विस्तृत अध्ययन।

इकाई-3

1. पं. विष्णु नारायण भातखण्डे पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ताललिपि पद्धतियों का परिचय एवं तुलनात्मक अध्ययन।
2. संगीत की परम्परागत एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन।

इकाई-4

1. तबले के दस प्राणों का सामान्य अध्ययन।
2. एकल तबला वादन के क्रम का अध्ययन।
3. लोक संगीत का परिचयात्मक अध्ययन।

इकाई-5

1. बाज एवं घरानों का सामान्य अध्ययन।
2. स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ध्रुपद, धमार, तुमरी का सामान्य परिचय।
3. निम्नलिखित तबला वादकों की जीवनियाँ।
उस्ताद हबीबुद्दीन खॉं, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद मुनीर खॉं, उस्ताद नत्थू खॉं, उस्ताद लतीफ अहमद खॉं, उस्ताद शफात अहमद खॉं, उस्ताद हाजी विलायत अली खॉं, उस्ताद शेख दारुद खॉं।



सत्र 2019–20
बी. ए. द्वितीय वर्ष
द्वितीय प्रश्न पत्र
भारतीय संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत
(Applied Principles of Indian Music)

समय: 3 घण्टे

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. पाठ्यक्रम के तालों (तीनताल, सवारी, एकताल, झपताल, कहरवा, रूपक, दादरा, दीपचन्दी, धमार, झूमरा) को ठाह, दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लयकारियों में ताललिपि में लिखने का अभ्यास।
2. तिरकिट, घिडनग, किडनग, धिरधिर, क्डानं, धेत्धेत् बोल समूहों की निकास विधि का शास्त्रीय अध्ययन।

इकाई-2

1. तीनताल एवं झपताल में कायदा, चार पल्टों एवं तिहाई सहित ताललिपि में लिखने का अभ्यास।
2. तीनताल, सवारी, एकताल, झपताल, कहरवा, रूपक, दादरा, दीपचन्दी, धमार, झूमरा तालों को कुआड, आड एवं बिआड लयकारियों में लिखने का अभ्यास।

इकाई-3

1. कहरवा तथा दादरा में न्यूनतम दो-दो लग्गियाँ लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
2. वायलिन, रूद्रवीणा, सरोद, मृदंगम् का सचित्र वर्णन।

इकाई-4

1. तीनताल एवं झपताल में एक रेला चार पल्टों एवं तिहाई सहित लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
2. परनों के प्रकारों (साधारण, चक्रदार, फरमाईशी एवं कमाली) का अध्ययन।
3. तीनताल में न्यूनतम दो-दो मुखडे एवं दो-दो तिहाईयाँ लिपिबद्ध करने का अभ्यास।

इकाई-5

1. पेशकार का प्रारम्भिक ज्ञान एवं तीनताल में विस्तार सहित लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
2. दमदार एवं बेदम तिहाई का उदहारण सहित लिपिबद्ध करने का अभ्यास।



सत्र 2019–20
बी. ए. द्वितीय वर्ष
प्रायोगिक
तबला वादन की तकनीक
(Technique of Tabla Playing)
प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration and Viva)

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

1. पाठ्यक्रम के तालों (तीनताल, सवारी, एकताल, झपताल, कहरवा, रूपक, दादरा, दीपचन्दी, धमार, झूमरा) को ठाह, दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लय में हाथ से ताली देकर पढना तथा तबले पर बजाना।
2. चौताल, सूलताल, तीव्रा तालों को ठाह लय में तबले पर बजाना।
3. तिट, तिरकिट, धिनगिन, घिडनग, किडनग, धिरधिर बोलों का तबले पर निकास।
4. तीनताल का कायदा चार पल्टों एवं तिहाई सहित हाथ से ताली देकर पढना।
5. तीनताल में पहली, पॉचवी, सातवी, नौवी एवं तेरहवीं मात्रा से प्रारंभ मोहरों का वादन।
6. तबले के घरानों की सामान्य जानकारी।
7. तीनताल में एकल वादन (न्यूनतम 10 मिनिट)
8. परीक्षक द्वारा पूछे गये पाठ्यक्रम में निर्धारित तालों में से परीक्षक द्वारा पूछे गये किन्हीं चार तालों का एकगुन, दुगुन एवं चौगुन में प्रस्तुतिकरण।

//संदर्भित पुस्तकें//

1. ताल प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
2. तबला कौमुदी भाग 1 एवं 2 : श्री रामशंकर पागलदास
1. तबला प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
2. ताल परिचय भाग 1 एवं 2 : पं. गिरीष चन्द्र श्रीवास्तव



सत्र 2019–20
नियमित परीक्षार्थियों हेतु
बी. ए. तृतीय वर्ष
तबला
प्रथम प्रश्न पत्र
संगीत का विज्ञान
(Science of Music)

समय: 3 घण्टे

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. भारतीय संगीत के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन। (13वी. से 15वी. शताब्दी तक)
2. पाश्चात्य ताललिपि पद्धति का अध्ययन।
3. पखावज एवं तबला की वादन शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन।

इकाई-2

1. अवनद्ध वाद्यों के वर्गीकरण का सामान्य अध्ययन।
2. उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित घन वाद्यों का सामान्य अध्ययन।
3. तबला वादकों के गुण-दोषों का अध्ययन।

इकाई-3

1. तबले के बनारस एवं पंजाब घरानों का ऐतिहासिक अध्ययन।
2. तबले के बनारस एवं पंजाब घरानों की वादन शैलियों का अध्ययन।

इकाई-4

1. प्राचीन मार्गी ताल पद्धति का सामान्य अध्ययन।
2. खयाल गायन शैली का सामान्य परिचयात्मक अध्ययन।
3. उत्तर भारतीय शास्त्रीय गायन के घरानों का सामान्य परिचयात्मक अध्ययन।

इकाई-5

1. संगीत संबंधी विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लेखन।
2. निम्नलिखित वरिष्ठ तबला वादकों का जीवन परिचय।
पं. कंठे महाराज, पं. अनोखेलाल, पं. सामता प्रसाद (गुदई महाराज), पं. कि"ान महाराज, लाला भवानीदीन, उस्ताद अल्लारखा खॉ

सत्र 2019–20
बी. ए. तृतीय वर्ष
तबला
द्वितीय प्रश्न पत्र
भारतीय संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत
(Applied Principles of Indian Music)

समय: 3 घण्टे

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

इकाई-1

1. बसंत, रुद्र, जय, शिखर एवं मत्त तालों का परिचय तथा ठाह, दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लय में लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
2. रूपक अथवा एकताल में एक कायदा चार पल्टों एवं तिहाई सहित ताललिपि में लिखने का अभ्यास।

इकाई-2

1. कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त घटम, खंजरी, कांस्य ताल, पणव, पटह, दर्दुर तविल एवं डफ वाद्यों का सचित्र वर्णन।
2. पौन गुन एवं पौने दो गुन लयकारियों का परिचय व विभिन्न तालों को उक्त लयकारियों में लिपिबद्ध करने का अभ्यास।

इकाई-3

1. बंदिश एवं इसके प्रकारों का विस्तृत विवेचन। (विस्तारशील एवं अविस्तारशील)
2. झपताल एवं रूपक तालों में मुखडे, टुकडे एवं तिहाईयों को ताललिपि में लिखने का अभ्यास।

इकाई-4

1. तीनताल में तिहाई, टुकडे, मुखडे, परन, चक्रदार, फरमाई"ी चक्रदार लिपिबद्ध करने का अभ्यास।
2. पेशकार विस्तार सिद्धांतों का अध्ययन।
3. गायन, वादन एवं नृत्य प्रकारों के साथ तबला संगति सिद्धांत का अध्ययन।

इकाई-5

1. तिहाई रचना सिद्धांतों का अध्ययन।
2. पिछले पाठ्यक्रमों में सीखे गये तालों को विभिन्न लयकारियों में लिखने का अभ्यास।



सत्र 2019–20
बी.ए. तृतीय वर्ष
प्रायोगिक
तबला वादन की तकनीक
(Technique of Tabla Playing)
प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration and Viva)

अंक योजना			
मिड टर्म +उपस्थिति	एण्ड टर्म	कुल अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
15+5	80	100	33%

1. पिछले पाठ्यक्रमों के तालों सहित बसंत, रूद्र एवं मत्त तालों को दुगुन, तिगुन एवं चौगुन लय में हाथ से ताली देकर पढ़ना तथा तबले पर बजाना।
2. बनारस एवं पंजाब घरानों के प्रमुख बोल समुदायों का वादन।
3. रूपक के कायदे को पल्टों एवं तिहाई सहित हाथ से ताली देकर पढ़ना।
4. उपशास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों के ठेकों को बजाने का अभ्यास।
5. शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त तालों के ठेका को अपेक्षित लय (विलंबित/द्रुत) में बजाने का अभ्यास।
6. तीनताल, झपताल सहित रूपक ताल में एकल वादन।
7. परीक्षक द्वारा पाठ्यक्रम के निर्धारित तालों में से किन्हीं चार तालों के ठेकों का अपेक्षित लय में वादन।
8. तबला वाद्य को अपेक्षित स्वर में मिलाने का ज्ञान।

//संदर्भित पुस्तक//

1. ताल प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
2. तबला कौमुदी भाग 1 एवं 2 : श्री रामशंकर पागलदास
3. तबला प्रकाश : श्री भगवतशरण शर्मा
1. ताल परिचय भाग 1 एवं 2 : पं. गिरीष चन्द्र श्रीवास्तव
2. ताल वाद्य शास्त्र : डॉ. मनोहर भालचन्द्र मराठे
6. पखावज एवं तबला के घराने एवं परम्पराएँ : डॉ. अबान मिस्त्री

